ADHBHUT INFRASTRUCTURE LIMITED

Registered Office:

Begampur Khatola, Khandsa, Near Krishna Maruti, Basai Road, Gurgaon, Arjun

Nagar, Haryana, India, 122001

Email: adhbhut.ind@rediffmail.com | Website: www.adhbhutinfra.in

Tel.: +91-7048959386 | CIN: L51503HR1985PLC121303

Ref No.: NIL/BSE/2024-25 Date: 16/11/2024

To,
The Manager
BSE Limited,
Listing Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400001

BSE SECURITY CODE: 539189

<u>Subject: Newspaper Clippings of the Published Un-Audited Financial Results for the Quarter and half year ended on September 30, 2024.</u>

Dear Sir/Madam,

With reference to the captioned subject, we enclose herewith the Newspaper Clippings of the Un-Audited Standalone Financial Results pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for the Quarter and half year ended on September 30, 2024 as published in following newspapers:

- 1. Financial Express dated 16th November, 2024.
- 2. Jansatta dated 16th November, 2024.

Copies of the Newspapers clippings are also available on the website of the Company i.e. www.adhbhutinfra.in and also on BSE website i.e. www.bseindia.com.

We request you to take the above information on record.

Thanking You,

Yours faithfully, For Adhbhut Infrastructure Limited

Anubhav Dham (Managing Director)

DIN: 02656812

FINANCIAL EXPRESS

JAYPEE INFRATECH LIMITED

Regd.Office: Sector -128, Noida-201304 (U.P.) CIN: L45203UP2007PLC033119

Ph: 91 (120) 4609000, 2470800 Email: jpinfratech.investor@jilindia.in Website: www.jaypeeinfratech.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024 (7 in Lakhs except EPS) Standalone Consolidated **Particulars** Quarter ended Year ended Quarter ended Year ended 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023 31.03.2024 31.03.2023 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023 31.03.2024 31.03.2023 Audited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Unaudited Audited Unaudited Unaudited Audited 29,776 32,730 22,931 99,903 91,195 32,730 23,066 99,903 1,24,395 Total Income from Operations 23,066 Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional and/or extraordinary items) 8,037 9,204 (14,244)33,367 1,90,710 8,037 9,204 (16,632)33,367 1,99,135 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items) 8,037 9,204 4,19,345 33,367 2,42,879 8,037 9.204 4,50,425 33,367 2,67,922 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items) (6.792)9,204 4.11.757 18,538 2,35,291 9,204 4,42,837 18,538 2,60,334 (6,792)Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) 18,534 2,60,331 and Other Comprehensive Income (after tax)) (6,800)9,206 4,11,762 2,35,296 (6,800)9,206 4,42,825 18,534 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- each) 14 14 14 14 14 14 14 Other Equity (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year) 10,36,559 10,36,559 Earnings per Share (of ₹ 10/- each) for continuing and discontinued operations (not annualised): - Basic (In ₹) (1.25)1.70 35.40 3.42 17.65 (1.25)1.70 38.07 3.42 9.53 (1.25)3.42 17.65 (1.25)38.07 3.42 19.53 - Diluted (In ₹) 1.70 35.40 1.70

The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Standalone Financial Results for the quarter/ year ended 31st March, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Results for the quarter /year ended on 31st March, 2024 are available on the websites of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), BSE Limited (www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.jaypeeinfratech.com). The items referred in the regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to National Stock Exchange of India Limited and BSE limited and also available on company's website.

The Standalone Results of the Company comprise of only one segment i.e. Yamuna Expressway Project, an integrated and indivisible project which inter-alia includes construction, operation and maintenance of Yamuna Expressway and rights for land development of 25 million sq. mtrs. along the expressway.

Pursuant to the order of the Hon'ble NCLT approving the Resolution Plan, the liability with respect to the NCDs shall be settled as per the treatment given in the Resolution Plan to the Assenting Institutional Financial Creditors and the outstanding NCDs shall stand extinguished and the said NCDs shall be delisted from BSE limited. The Company is in the process of the same.

For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com) and is also available on the Company's website www.jaypeeinfratech.com).

The Company had issued series of Non-Convertible Debt Securities ("NCDs") privately placed and solely held by Axis Bank Limited which are currently listed at BSE limited.

* Quarterly ratio are not annualised

Place : Noida Date November 14, 2024

For and on behalf of Jaypee Infratech Limited **Devang Pravin Patel** Aalok Dave Chief Financial Officer Managing Director & CEO DIN: 06645714

SBEC SUGAR LIMITED

Regd. Off.: Village Loyan Malakpur, Tehsil Baraut, District: Baghpat, Uttar Pradesh-250611 CIN: L15421UP1991PLC019160

Tel.: 01234-259206 Fax:+91-1234-259200 E-mail: investors@sbecsugar.com, Website: www.sbecsugar.com

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024

(Rs. in Lacs) STANDALONE CONSOLIDATED Quarter Ended Quarter Ended Half Year Half Year Particulars Year Ended ended Year Ended ended No. 30.09.2024 30.09.2023 30.09.2024 31.03.2024 30.09.2024 30.09.2023 30.09.2024 31.03.2024 Unaudited Unaudited Unaudited Audited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Total Income 13713.15 13464.72 27784.21 64460.58 13714.49 13464.72 27839.66 65534.94 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) (2607.50)(3583.03)(3031.98)(2153.62)(4264.88) 152.01 (1802.48)465.02 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items and share of Profit/Loss of Associates) (2607.50)(1802.48)(3583.03)465.02 (3031.98)(2153.62)(4264.88)152.01 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items) (2607.50)(3583.03)465.02 (3031.98)(2155.78)(4264.88)(329.67)(1802.48)Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)) (2609.54)(1799.85)(3587.10)456.87 (3034.09)(2153.50)(4269.12)(338.15)4765.39 4765.39 4765.39 4765.39 4765.39 4765.39 Equity Share Capital 4765.39 4765.39 Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year Earnings Per Share (EPS) (for continuing and discontinued operations) Basic (5.47)(3.78)(7.52)0.98 (6.36)(4.52)(8.95)(0.69)(4.52)Diluted (5.47)(3.78)(7.52)0.98 (6.36)(8.95)(0.69)b

NOTE: The above is an extract of the detailed format of Quarterly and half yearly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing and

other Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly financial results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on Company's website at www.sbecsugar.com. The above Financial Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held

on November 14, 2024.

The Financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rule (As amended)

By Order of Board Sd/-Umesh Kumar Modi Chairman & President

DIN: 00002757

Place: New Delhi Date: 14.11.2024

Particulars

SI.

STANDALONE

ADHBHUT INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN: L51503HR1985PLC121303

Registered Address: Begampur Khatola, Khandsa, Near Krishna Maruti, Basai Road, Gurgaon, Arjun Nagar, Haryana, India, 122001 STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2024

(Rupees in Lakhs)

Year Ended	
31.03.2024	
Audited	
255.75	
24.15	
279.90	
11.80	
24.75	
104.74	
31.40	
172.69	
107.21	
19.94	
87.27	
-	
87.27	
1,100.00	
(1,712.93)	
0.79	
0110	

EPS not annualized for the quarter ended September 30, 2024, September 30, 2023 and June 30, 2024. and half year ended September 30, 2024 and September 30, 2023,

Notes to financial results:

Date: 14th November 2024

Place: New Delhi

Board of Directors of the company at their meeting held on 14th November 2024. In accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disc1osure Requirements) Regulations, 2015, the statutory auditors have performed an

The above unaudited financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee on 14th November 2024 and subsequently have been approved by the

- limited review of the standalone financial results of the Company for the half year ended and quarter ended 30th September 2024. There are no modifications in the audit reports.
- The Financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).
- As the Company has only one Operating Segment, disclosure under Ind AS 108-Operating Segment is not applicable
- A Provisional Attachment Order No. 09/2024, issued via email dated 13.09.2024 by the Deputy Director posted at the Gurugram Zonal Office, Directorate of Enforcement, New Delhi, has been passed against the compay. This order pertains to the provisional attachment of immovable properties held in the companies's name, vide reference number F.No.ECIR/ GNZO/14/2024, dated 05.09.2024, and includes the attachment of shares held by the promoter company. This order, however, does not affect the business operations of the Company.
- Previous period's figures have been re-grouped/re-classified to render them comparable with the figures of the current period. The Financial Results for the half year ended and quarter ended 30th September 2024 is available on the website of the Company https://adhbhutinfra.in and the website of BSE i.e.
- www.bseindia.com.

for Adhbhut Infrastructure Limited Sd/-

> **Anubhav Dham Managing Director**

BHARAT EKANSH LIMITED

REGD. OFF. -PLOT No. 646, Pocket C, IFC, Ghazipur, Delhi-110096 CIN: L74899DL1985PLC020973, Ph.No: 9355777335-36, Website: www.bharatekanshlimited.com, Email: bharat.ekansh.ltd@gmail.com

	Extract of Consolidated and Standalone Unudited Financial Results for the Quarter 30 September 2024									
		Consolidat	ed (Rs. in Th	ousands) Ex	cept EPS	S Standalone (Rs. in Thousands) Except EPS				
sı	Postioulous /	Qua	rter	Six Months	Year	Quart	er	Six Months	Year	
No	Particulars	End	led	Ended	Ended	Ende	d	Ended	ended	
	1	30-Sep-24	30-Sep-23	30-Sep-24	31-Mar-24	30-Sep-24	30-Sep-23	30-Sep-24	31-Mar-24	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Revenue from Operation	1,574.24	1,713.70	2,014.67	6,075.94	1,574.24	1,713.70	2,014.67	6,075.94	
2	Net Profit/(Loss) for the Period (before tax, exceptional items)	171.37	(414.83)	(137.26)	41.26	187.26	(383.86)	(106.84)	83.82	
3	Net Profit/(Loss) for the Period before tax (after exceptional items)	171.37	(414.83)	(137.26)	41.26	187.26	(383.86)	(106.84)	83.82	
1	Net Profit/(Loss) for the Period after tax (after exceptional items)	171.37	(414.83)	(137.26)	13.58	187.26	(383.86)	(106.84)	56.14	
5	Total Comprehensive income for the period(comprising profit/ (loss)	1 1								
	for the period (after tax)and other comprehensive income (after tax)	171.37	(414.83)	(137.26)	13.58	187.26	(383.86)	(106.84)	56.14	
3	Equity Share Capital	50,000.21	50,000.21	50,000.21	50,000.21	50,000.21	50,000.21	50,000.21	50,000.21	
7	Reserves excluding revaluation reserves	4,87,930.03	4,88,013.82	4,87,930.03	4,88,067.29	17,125.45	17,191.71	17,125.45	17,232.29	
3	EPS (Face Value Rs. 10/- per share) Not Annualised	1		1 1					I	
	1. Basic:	0.03	(0.08)	(0.03)	0.00	0.04	(0.08)	(0.02)	0.01	
	2. Diluted:	0.03	(0.08)	(0.03)	0.00	0.04	(0.08)	(0.02)	0.01	
Vot	ote:									

a) The above is an extract of the detailed format of Quarter ended 30 September, 2024 of Consolidated and Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Reg 33 of SEBI(LODR), Reg. 2015. The Full format of the Quarter and Year ended financial results are available on the website of the Company i.e. www.bharatekanshlimited.com

Place: New Delhi Vasu Rastogi (Managing Director) Date: 14/11/2024

SBEC SYSTEMS (INDIA) LTD.

CIN:L74210DL1987PLC029979 REGD.OFFICE: 1400, HEMKUNT TOWER, 98, NEHRU PLACE, NEW DELHI-110019

Tel.: +91-11-42504842

E -Mail: sbecsystems@rediffmail.com, Website: www.sbecsystems.in EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024

(Rs. in Lakhs)

For Bharat Ekansh Limited

	Particulars		STANDALONE				CONSO	LIDATED	0
Sr. No.		Quarte	Ended	Half year Ended	Year Ended	Quarte	r Ended	Half year Ended	Year Ended
		30.09.2024 Un-Audited	30.09.2023 Un-Audited	30.09.2024 Un-Audited	31.03.2024 Audited	30.09.2024 Un-Audited	30.09.2023 Un-Audited	30.09.2024 Un-Audited	31.03.2024 Audited
3	Total Income	76.99	63.49	143.52	319.06	76.99	63.49	143.52	319.06
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	27.77	8.42	55.23	138.71	27.77	8.42	55.24	138.71
:3 ::	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items and share of Profit/Loss of Associates)	27.77	8.42	55.23	138.71	27.77	8.42	55.24	138.71
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	26.19	24.37	46.01	132.91	26.19	24.37	46.02	132.91
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other								
	Comprehensive Income(after tax)]	26.19	24.37	46.01	132.91	26.19	24.37	46.02	132.91
6	Equity Share Capital	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
7	Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance								
	sheet of previous year			*		- 8			
8	Earnings Per Share (EPS) (for continuing and								
	discontinued operations)								
	a Basic	0.26	0.24	0.46	1,33	0.26	0.24	0.46	0.44
	b Diluted	0.26	0.24	0.46	1.33	0.26	0.24	0.46	0.44

NOTES:

Place: New Delhi

Date: 14.11.2024

SR 1.BORROWER(S) NAME

- 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and half yearly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing and other Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & Half Yearly financial results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on Company's website at www.sbecsystems.in.
- The above Financial Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on November 14, 2024.
- The Financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rule (As amended) By Order of Board

For SBEC Systems (India) Limited

J.C. Chawla

DIN: 05316202

(Director)

APRIGLOBAL Registered & Corporate Office :- 502, Tower-A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 CAPITAL LIMITED Circle Office :- 9-B, 2nd floor, Pusa Road, Rajinder Place, New Delhi-110060

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

1. DATE & TIME OF E-AUCTION 1. RESERVE PRICE

APPENDIX- IV-A [See proviso to rule 8 (6) and 9 (1)] Sale notice for sale of immovable properties

DESCRIPTION OF THE

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) and 9 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Constructive/physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Capri Global Capital Limited Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on dates below mentioned, for recovery of amount mentioned below due to the Capri Global Capital Limited Secured Creditor from Borrower mentioned below. The reserve price, EMD amount and property details mentioned below.

JR.	I.DOKKOWEK(S) NAME	DESCRIPTION OF THE	1. DATE & TIME OF L-AUCTION	I. KESEKVE PRICE
NO.	2. OUTSTANDING AMOUNT	MORTGAGED PROPERTY	2. LAST DATE OF SUBMISSION	2. EMD OF THE PROPERTY
1.	1. Mr. Binod Kumar Alias Mr. Vinod	All Piece and Parcel of Property being		3. INCREMENTAL VALUE
	Tiwari ("Borrower")	House No. 96, area admeasuring 50 Sq.		RESERVE PRICE:
	2. Mrs. Kavita Tiwari	Yds., land measuring 2-1/2 Marla,	PROPERTY INSPECTION	Rs. 11,97,000/- (Rupees
	3.Mr. Prakash Tiwari (Co-borrower)	constructed out of Khasra No. 57/20, Plot	1. E-AUCTION DATE: 03.12.2024	Eleven lacs Ninety Seven
	LOAN ACCOUNT No.	No. 9 and 10, Gali No. 2, Nangla Marg, Mauja Saran, Sundar Colony, Sector – 22,	(Between 3:00 P.M. to 4:00 P.M.)	Thousand Only).
	LNCGCOKDTL0000008316 (Old)/	Tehsil Badkhal, District Faridabad,	2. LAST DATE OF SUBMISSION OF	EARNEST MONEY DEPOSIT:
	80500005449758 (New)	Harvana – 121005, Bounded as Follows:	EMD WITH KYC: 02.12.2024	Rs. 1,19,700/- (Rupees One
	Rupees 24,04,138/- (Rupees Twenty	Last by. Other's Property, west by.		Lac Nineteen Thousand Seven
	Four Lacs Four Thousand One Hundred	Other's Property, North By: Other's	30.11.2024	Hundred Only)
	Thirty Eight Only) as on 05.10.2024	Property, South By: Gali		INCREMENTAL VALUE: Rs.
	along with applicable future interest.			10,000/- (Rupees Ten
				Thousand Only)
For d	etailed terms and conditions of the sale inlease	refer to the link provided in Capri Global Cap	sital Limited Secured Creditor's we	beite i.e. www. Capriglobal in/auction/

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Capri Global Capital Limited Secured Creditor's website i.e. www. Capriglobal.in/auction/ TERMS & CONDITIONS OF ONLINE E-AUCTION SALE:-

1. The Property is being sold on "AS IS WHERE IS, WHATEVER THERE & WITHOUT RECOURSE BASIS". As such sale is without any kind of warranties & indemnities. 2. Particulars of the property / assts (viz. extent & measurements specified in the E-Auction Sale Notice has been stated to the best of information of the Secured Creditor and

Secured Creditor shall not be answerable for any error, misstatement or omission. Actual extant & dimensions may differ. 3. E-Auction Sale Notice issued by the Secured Creditor is an invitation to the general public to submit their bids and the same does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or nay representation on the part of the Secured Creditor. Interested bidders are advised to peruse the copies of title deeds with the Secured Creditor and to conduct own independent enquiries /due diligence about the title & present condition of the property / assets and claims / dues affecting the property before

submission of bid/s. 4. Auction/bidding shall only be through "online electronic mode" through the website https://sarfaesi.auctiontiger.net Or Auction Tiger Mobile APP provided by the service provider M/S eProcurement Technologies Limited, Ahmedabad who shall arrange & coordinate the entire process of auction through the e-auction platform.

5. The bidders may participate in e-auction for bidding from their place of choice. Internet connectivity shall have to be ensured by bidder himself. Secured Creditor /service provider shall not be held responsible for the internet connectivity, network problems, system crash own, power failure etc.

6. For details, help, procedure and online bidding on e-auction prospective bidders may contact the Service Provider M/S E-Procurement Technologies Ltd. Auction Tiger, Ahmedabad (Contact no. 079-68136880/68136837), Mr. Chintan Bhatt Mob. 9265562821 & 9265562818. Email: Chintan.bhatt@auctiontiger.net,.

7. For participating in the e-auction sale the intending bidders should register their name at https://sarfaesi.auctiontiger.net well in advance and shall get the user id and password. Intending bidders are advised to change only the password immediately upon receiving it from the service provider.

8. For participating in e-auction, intending bidders have to deposit a refundable EMD of 10% OF RESERVE PRICE (as mentioned above) shall be payable by interested bidders through Demand Draft/NEFT/RTGS in favor of "Capri Global Capital Limited" on or before 02-Dec-2024.

9. The intending bidders should submit the duly filled in Bid Form (format available on https://sarfaesi.auctiontiger.net) along with the Demand Draft remittance towards EMD in a sealed cover addressed to the Authorized Officer, Capri Global Capital Limited Regional Office Plot no. 3B, 2nd Floor, Pusa Road, New Delhi 110 005 latest by **03:00 PM on 02-Dec-2024.** The sealed cover should be super scribed with "Bid for participating in E-Auction Sale- - in the Loan Account No.

mentioned above) for property of "Borrower Name.". 10. After expiry of the last date of submission of bids with EMD. Authorised Officer shall examine the bids received by him and confirm the details of the qualified bidders (who

have quoted their bids over and above the reserve price and paid the specified EMD with the Secured Creditor) to the service provider M/S eProcurement Technologies Limited to enable them to allow only those bidders to participate in the online inter-se bidding /auction proceedings at the date and time mentioned in E-Auction Sale Notice. 11. Inter-se bidding among the qualified bidders shall start from the highest bid quoted by the qualified bidders. During the process of inter-se bidding, there will be unlimited

extension of "10" minutes each, i.e. the end time of e- auction shall be automatically extended by 10 Minutes each time if bid is made within 10 minutes from the last extension. 12. Bids once made shall not be cancelled or withdrawn. All bids made from the user id given to bidder will be deemed to have been made by him alone. 13. Immediately upon closure of E-Auction proceedings, the highest bidder shall confirm the final amount of bid quoted by him BY E-Mail both to the Authorised Officer, Capri

Global Capital Limited, Regional Office Office/Plot no. 3B, 2nd Floor, Pusa Road, New Delhi 110 005 and the Service Provider for getting declared as successful bidder in the E-Auction Sale proceedings. 14. The successful bidder shall deposit 25% of the bid amount (including EMD) on the same day of the sale, being knocked down in his favour and balance 75% of bid amount within 15 days from the date of sale by DD/Pay order/NEFT/RTGS/Chq favouring Capri Global Capital Limited.

15. In case of default in payment of above stipulated amounts by the successful bidder / auction purchaser within the stipulated time, the sale will be cancelled and the amount

already paid (including EMD) will be forfeited and the property will be again put to sale. 16. At the request of the successful bidder, the Authorised Officer in his absolute discretion may grant further time in writing, for depositing the balance of the bid amount.

17. The Successful Bidder shall pay 1% of Sale price towards TDS (out of Sale proceeds) and submit TDS certificate to the Authorised officer and the deposit the entire amount

of sale price (after deduction of 1% towards TDS), adjusting the EMD within 15 working days of the acceptance of the offer by the authorized officer, or within such other extended time as deemed fit by the Authorised Officer, falling which the earnest deposit will be forfeited.

18. Municipal / Panchayat Taxes, Electricity dues (if any) and any other authorities dues (if any) has to be paid by the successful bidder before issuance of the sale certificate. Bids shall be made taking into consideration of all the statutory dues pertaining to the property. 19. Sale Certificate will be issued by the Authorised Officer in favour of the successful bidder only upon deposit of entire purchase price / bid amount and furnishing the

necessary proof in respect of payment of all taxes / charges. 20. Applicable legal charges for conveyance, stamp duty, registration charges and other incidental charges shall be borne by the auction purchaser.

21. The Authorized officer may postpone / cancel the E-Auction Sale proceedings without assigning any reason whatsoever. In case the E-Auction Sale scheduled is postponed to a later date before 15 days from the scheduled date of sale, it will be displayed on the website of the service provider.

22. The decision of the Authorised Officer is final, binding and unquestionable.

23. All bidders who submitted the bids, shall be deemed to have read and understood the terms and conditions of the E-Auction Sale and be bound by them. 24. Movable item (if any) lying in the property is not offer with sale.

25. For further details and queries, contact Authorised Officer, Capri Global Capital Limited: Mr. Amit Verma Mo. No. 9013255520/7400445137 and for further inquiry Ms. Kalpana Chetanwala-7738039346. 26. This publication is also 15 (Fifteen) days notice to the Borrower / Mortgagor / Guarantors of the above said loan account pursuant to rule 8(6) and 9(1) of Security Interest

(Enforcement) Rules 2002, about holding of auction sale on the above mentioned date / place. Special Instructions / Caution: Bidding in the last minutes/seconds should be avoided by the bidders in their own interest. Neither Capri Global Capital Limited nor the Service Provider will be responsible for any lapses/failure (Internet failure, Power failure, etc.) on the part of the bidder in such cases. In

order to ward off such contingent situation, bidders are requested to make all the necessary arrangements / alternatives such as back-up power supply and whatever else required so that they are able to circumvent such situation and are able to participate in the auction successfully.

Place: DELHI/NCR Date: 16-NOV- 2024 Sd/- (Authorised Officer) Capri Global Capital Ltd.

New Delhi

financialexp.epapr.in

जनसता

पंजीकृत कार्यालय : संक्टर-128, नोएडा-201304, उ.प्र. सीआईएन : एल45203यूपी2007पीएलसी033118 दूरमाष : 91 (120) 4609000, 2470800, हमेल : jpinfratech.investoria jilindia.in, वेक्साइट: www.jaypeeinfratech.com,

	30 जून 2024 को समाप्त वि	तेमाही के अले	खापरीक्षित वि	त्तीय परिणाओं	का साराँश			(रुलाख में, १	(पीएस छोड़कर)
更	विवरण	विवरण एकल परिणाम			समेकित परिणाम				
सं		2	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		समाप्त तिमार्ह	1	समाप्त वर्ष
		50 05 2024	31 03 2024	30 06 2023	31 03 2024	30.06.2024	31.03.2024	30 96 2023	31 03 2024
		(जलेकापरीवित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखानरीवित)	(अलेखापरीकेत)	(अलेखापरीकित)	(अलेखापरीक्षित)
1 2	परिचालनों से कुल आय अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर एवं आपवादिक	44,143	32,730	22,286	99,903	44,143	32,730	22,286	99,903
3	एवं/अथवा असम्बारण मदों से पूर्व) कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाम/(डामि) (आपवादिक	10,762	8,007	8,820	33,367	10,763	5007	8,820	33,367
	एवं/अथवा असाधारण मदीं के उपरांत)	10,763	8,037	8,820	33,357	10,763	8,037	8,820	33,367
5	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाम/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के चपरांत) अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाम/(हानि)	10,763	(5,792)	8,820	18,538	10,763	(6,792)	8,820	18,538
6	(कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर तपरांत) से समाविष्ट]	10,762	(6,800)	8,821	18,534	10,762	(6,800)	8.821	18,534
7	प्रयत्त समता अंश पूजी (अंकित मूल्य रु. 10 / – प्रत्येक का) अन्य समताये (पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन–पत्र में	12,514	14	14	14	12,514	14:	14	14
B	निवर्शितानुसार पुनर्मूल्याकन आरक्षित छोडकर) आय प्रति अंश (रु. 10/ – प्रत्येक का) परिचालनरत् तथा अपरिचालित परिचालनी हेतु (अवार्षिकीकृत) :	- E	245	18000	10,55,094	*	•		10.55,094
	-मूलभूत (रु. में) -तरलीकृत (रु. में)	1.94 1.94	(1.25) (1.25)	1.63 1.63	3.42 3.42	1.94 1.94	(1.25) (1.25)	1.63 1.63	3.42 3.42

- उपर्यक्त सारोंश, सेबी (सुचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अफेशाएँ) विनियम, 2016 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सबेंजों के साथ दर्ज 30 जन, 2024 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारीश है। दिनांक 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के उपर्युक्त परिणामों का पूर्ण प्रारूप नेशनल स्टीक एक्सचेज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट (www.nseindia.com), बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा साथ ही कम्पनी की वेबसाइट (www.jaypecinfratech.com) पर उपलब्ध है। सेबी (सूबीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेकाएँ) विनियमावली 2015 के विनियम 52(4) में संदर्भित मद, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेंड और बीएसई लिमिटेंड को भेजे गए हैं और कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।
- कम्पनी के एकल परिणामों में केवल एक ही खंड अर्थात यमुना एक्सप्रेसचे प्रॉजिक्ट, एक एकीकृत तथा अविभाजनीय परियोजना शामिल है. जिसमें अन्य बातों के अलावा यमुना एक्स्प्रैसवे का निर्माण, प्रचालन तथा रखरखाव तथा एक्स्प्रेसवे से लगे 25 मिलियन वर्ग मी. मूमि के विकास के अधिकार शामिल हैं।
- कंपनी ने निजी तौर पर रखे गए और पूरी तरह से एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा धारित गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों ('एनसीडी') की श्रृंखला जारी की थी, जो वर्तमान में बीएसई लिमिटेड में सुबीबद्ध हैं। समाधान योजना को मंजूरी देने वाले माननीय एनसीएलटी के आदेश के अनुसार, एनसीडी के संबंध में देयता को सहमति देने वाले संस्थामत वित्तीय लेनदारों को समाधान योजना में दिए गए उपचार के अनुसार निपटाया जाएगा और बकाया एनसीडी समाप्त हो जाएंगे और उक्त एनसीडी को बीएसई लिमिटेड से हटा दिया जाएगा। कंपनी इसी प्रक्रिया में है।
- सेंबी (सूचीबद्धता और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 62 (4) में संदर्शित अन्य लाइन आइटम के लिए, स्टॉक एक्सवेंज (ऑ) नेशनल स्टॉक एक्सवेंज ऑफ इंखिया लिमिटेंड (www.nseindia.com) और बीएसई लिमिटेंड (www.bseindia.com) को प्रासंगिक प्रकटीकरण किए गए हैं और यह कंपनी की वेबसाइट
- (www.jaypeeinfratech.com) पर भी उपलब्ध है। दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के आंकड़े 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के समीक्षित आंकड़ों और 31 दिसंबर, 2023 तक प्रकाशित वर्ष-दर-वर्ष के आंकड़ों के बीच
- संतलन के आंकड़े दशति हैं। : पिछली तिमाहियों/वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान तिमाही/वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप बनाने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पुन तैयार/पुन: समूहीकृत/पुनव्यंवरिधत किया गया है।
- जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेंब हेतु तथा उसकी ओर से देवींग प्रवीण पटेल आलोक दवे

दिनांक : 14 नवंबर 2024

स्थान : नोएडा

वैलगा फूड्स लिमिटेड

मुख्य वितीय अधिकारी

प्रबंध निदेशक तथा सीईओ

डीआईएन : 06645714

कारपोरेट पहचान संख्या (CIN)- L15419UP1983PLC005918

पंजीकृत कार्यालयः श्यामनगर, बदायूँ, उत्तर प्रदेश, E: ho@welgafoods.com W: www.welgafoods.com, M: +91 7080172555

सितम्बर 30, 2024 को समाप्त तिमाही एवं अर्धवार्षिक के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

क्र० विवरण			समाप्त तिमा	ही	समाप्त अर्ध	वार्षिक	समाप्त वार्षिक
सं०		30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
		अनअंकेक्षित)	अनअंकेक्षित)	अनअंकेक्षित)	अनअंकेक्षित)	अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1	परिचालन से आय	974.13	760.00	565.31	1,734.13	1,207.54	2,586.28
2	विशिष्ट मदों एवं कर से पहले लाभ/(हानि)	58.98	27.44	(72.45)	86.42	(169.25)	(79.37)
3	कर से पहले लाभ/(हानि) विशिष्ट मदों के बाद	58.98	27.44	(72.45)	86.42	(169.25)	(131.57)
4	कर के बाद अवधि नेट लाभ/(हानि)	58.98	27.44	(72.45)	86.42	(169.25)	(131.57)
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए शामिल लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय)	58.98	27.44	(72.45)	86.42	(169.25)	(102.98)
6	चुकता इक्वीटी शेयर कैपीटल (सममूल्य रू० 10/- प्रत्येक)	326.56	326.56	326.56	326.56	326.56	326.56
7	अन्य इक्वीटी				(205.87)		(292.29)
8	प्रति इक्वीटी शेयर आय (सममूल्य रू० 10/- प्रत्येक) (वार्षिकीकृत नहीं)						
	- मूल (रू०)	1.81	0.84	(2.22)	2.65	(5.18)	(3.15)
	तरल (रू०)	1.81	0.84	(2.22)	2.65	(5.18)	(3.15)

- 1 उपरोक्त परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल की नवम्बर 14, 2024 को सम्पन्न उनकी बैठक में अनुमोदित किये गये और कम्पनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा "सीमित समीक्षा" की गई। कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी–एएस) साथ में पठित (भारतीय लेखा मानकों) नियमन, 2015 के नियम 3 के एवं उसके बाद यथा संशोधित प्रासांगिक नियमों के अनुसार वित्तीय परिणाम तैयार किये गये। वैधानिक लेखा परीक्षकों इन परिणामों की असंशोधित/अंकेक्षण राय जारी की है।
- कम्पनी का परिचालन एकल खण्ड यानि जमी हुई सब्जियों के प्रसंस्करण एवं संरक्षण से सम्बन्धित है।
- 3 पिछली अवधियों के आकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, पुनः समूहित किया गया है।
- 4 कम्पनी प्रसंस्कृत और संरक्षित सब्जियाँ के व्यवसाय में लगी है, जो एक मौसमी उद्योग है, कम्पनी का प्रदर्शन तिमाही–दर तिमाही अलग होता है और तिमाही के वित्तीय परिणाम कम्पनी के वार्षिक परिणामों के प्रतिनिधि नहीं करते हैं।
- 5 प्रबन्ध निदेशक ने उनका उपहार दावा छोड़ दिया है।

निदेशक मंडल की ओर से उनके लिए हस्ता०/-ग्यान प्रकाश अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

DIN NO. 00184539

स्थानः लखनऊ तिथि: 16.11.2024

स्थान : गुरूग्राम दिनांक : नवम्बर 14, 2024

अद्भूत इन्फ्रास्क्टचर लिमिटेड

CIN: L51503HR1985PLC121303 **पंजीकृत पता**: बेगमपुर खटोला, खाडंसा, नजदीक कृष्णा मूर्ति, बसई रोड, गुरूगाँव, अर्जुन नगर, हरियाणा, इण्डिया, 122001

क्र०	विवरण			स	मेकित		तिथि : 14.08.202
सं०			समाप्त तिमाही	47	समाप्त अध	र्धवार्षिक	स्थान : गुडगाँव समाप्त वार्षिक
		30.09.24	30.06.24	30.09.23	30.09.24	30.09.23	31.03.2024
		अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित
	संचालन से आय						
	(क) नेट बिक्री/ संचालन से राजस्व	23.10	38.85	59.94	61.95	192.05	255.75
	(ख) अन्य आय			-		0.93	24.15
	संचालन से कुल आय	23.10	38.85	59.94	61.95	192.98	279.90
2	ब्यय						
	क) कर्मचारी लाभ ब्यय	2.05	2.06	3.01	4.11	6.00	11.80
	ख) वित्तीय लागत	6.69	6.54	6.11	13.23	12.09	24.75
	ग) मूल्यहास और परिशोधन ब्यय	26.16	26.16	26.13	52.32	52.32	104.74
	घ) अन्य ब्यय	8.42	9.56	2.31	17.98	20.04	31.40
	कुल ब्यय	43.32	44.32	37.56	87.64	90.45	172.69
	कर से पहले लाभ/(हानि) (1-2)	(20.22)	(5.47)	22.37	(25.69)	102.53	107.21
	कर ब्यय (नेट)	1.41	4.83	5.76	6.24	24.96	19.94
	अवधि के लिए लाभ/(हानि) (3-4)	(21.63)	(10.29)	16.61	(31.93)	77.57	87.27
	अन्य व्यापक आय (नेट ऑफ कर)	-	-	-	_	-	
	कुल व्यापक आय (कर के बाद) (7+8)	(21.63)	(10.29)	16.61	(31.93)	77.57	87.27
	चुकता इक्वीटी कैपीटल (सममूल्य रू० 10/- प्रति शेयर)	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
	अन्य इक्वीटी						(1,712.93)
0	प्रति इक्वीटी शेयर आय *			-	į.		
	मूल (रू०)	(0.20)	(0.09)	0.15	(0.29)	0.71	0.79
	I		1				

तरल (रू०) (0.20)' समाप्त तिमाही सितम्बर 30, 2024, सितम्बर 30, 2023 एवं 30 जून, 2024 एवं समाप्त अर्धवार्षिक सितम्बर 30, 2024 एवं का सितम्बर 30, 2023 का ईपीएस सालाना नहीं है।

वित्तीय परिणामों पर टिप्पणीः

तिथि: 14 नवम्बर, 2024

स्थान : नई दिल्ली

- उपरोक्त अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का लेखा समिति द्वारा 14 नवम्बर, 2024 को समीक्षा और सिफारिस की गई और बाद में निर्देशक मंडल की 14 नवम्बर, 2024 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित किये गये।
- 2 सेबी (सूचीबद्वता दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अनुसार कम्पनी के 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त अर्धवार्षिक एवं समाप्त तिमाही के समेकित वित्तीय परिणामों का वैधानिक परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा की गई। अंकेक्षण रिपोर्ट में यहाँ पर कोई संशोधिन नहीं है।
- कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अन्तर्गत निर्धारित साथ में पिटत उसके अन्दर बनाये गये प्रासांगिक नियमों एवं सेबी (सूचीबद्वता दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 (यथा संशोधित) भारतीय लेखा मानकों ('आईएनडी एएस') के अनुसार ये वित्तीय परिणाम तैयार किये गये।
- चुंकि कम्पनी के पास केवल एक ऑपरेटिंग सेगमेन्ट रिपीटिंग है, इसलिए एएस 108-ऑपरेटिंग सेगमेन्ट के तहत सेगमेन्ट लागू नहीं है।
- गरूग्राम जोनल कार्यालय, प्रवंतन निदेशालय, नई दिल्ली में तैनात उप निदेशक द्वारा कम्पनी के खिलाफ पारित एक अनंतिम अनलग्न आदेश संख्या 09/2024 दिनांक 13.09.2024 को ईमेल द्वारा जारी किया गया। यह आदेश संदर्भ एफ संख्या ECIR/GNZO/14/2024, दिनांक 05.09.2024, के तहत कम्पनियों केनाम पर रखी गई अचल सम्पत्तियों की अनंतिम कुर्की से सम्बन्धित है और इसमें प्रमोटर कम्पनी के द्वारा रखे गये शेयरो की कुर्की भी शामिल है। इस आदेशा से हालाँकि, कम्पनी के व्यवसाय संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- पिछली अवधि के आकड़ों को वर्तमान अवधि के ओड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।
- 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम कम्पनी की वेबसाइट https://adhbhutinfra.in एवं बीएसई की वेबसाइट i.e. www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

किते अद्भूत इन्फ्रास्क्टचर लिमिटेड हस्ता०/-

अनुभव धाम प्रबन्ध निर्देशक

MUTHOOT FINCORP LTD. सोने की नीलामी सूचना

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 69500 CIN: U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

सभी संबंधित व्यक्तियों की सुबना के लिए एतव्ह्राग सुबना दी जाती है कि 31.12.2023 & MSGL, SPL.16, One plus, Guid Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure Gold loans up to 31.03.2024 and MSGB, SME Suvam & EMI due up to 30.00.2024 तक की अवधि के लिए कम्पनी की नीचे कवित शाखाओं में गिरवी रखे सोने के यहनें जिन्हें छुड़ाने का समय बीत पुका है तथा जिन्हें बार-बार सूक्षना दिए जाने पर थी अब तक। छुड़ाए नहीं गा। है उनकी नीलायी 26.11.2024 को 10.00 बजे से शुरु कर दी जाएरी।

HALDWANI DISTRICT - HALDWANI-DHUNGI ROAD: 421700180, 421700192, 421700274, 421700281 421700293, 421700320, 421700321, 421700322, 421700326, 421700353, 421700358, 421700372 421700381 NAINITAL DISTRICT - RUDRAPUR: 422400067, 422400169, 422400188, 422400192 422400209, 422400219, 422400221, 422400237, 422400252, 422400266, 422400267, F2663, F2785 F2962, F4026, F4040, F4361.

नीलामी अपनी-जरूनी शाखाओं पर आयोजित की जारनी। कृपया ध्यान दें कि यदि नीलामी किसी कारणवंश उसी दिन पूरी न हो पाई ती नीआमी 65.12.2024 at 10.00 am at HALDWANE-DHUNGERDAD; Muthout FinCorp. Ltd., First Floor, Retanalaya 6-1685, Kaladhundi Road, Heldwani, Ultarakhand - 263138. RUDRAPUR: Mushoot FinCorp Ltd. First Floor, No. C-52, Avas Vikas, Santal Road, Rudraput, Uttarakhand - 263753, पर आयोजित की जाएगी। निविद्यकर्ताओं से निवेदन है कि ये फोटो पहचान -पत्र पैन कार्ड प्रस्तुत करें। सफल निविदाकर्ताओं को पैसा RTGS द्वारा ट्रांसफर करना होगा । मुक्ट जिनकार्थ निमिटेड

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेत्) नियम 8-(1)

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात (आईआईएफएल–एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पूनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त-अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि 60 दिवसों के अंदर सूचना में सांकित राशि के प्रतिभुगतान हेतु एक माँग सूचना निर्गत की गई थी। ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुग करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ता को तथा जनसाधारण को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्ग अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदृद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति क लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, यहां इसमें निम्न अंकिताानुसार एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हे आईआईएफएल एचएफएल के प्रभाराधीन होगा। ''उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण उस स्थिति में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधा की ओर आमंत्रित किया जाता है, यदि उधारकर्ता विक्रय अथवा हस्तांतरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व, किसी भी समय समस्त लागतों, प्रभारों ए उपगत व्ययों के साथ "आईआईएफएल-एचएफएल" को देय धनराषियों का पूर्ण भुगतान कर देता है, तो ऐसी स्थिति में "आईआईएफएल-एचएफएल द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और ''आईआईएफएल–एचएफएल'' द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों व इस्तांतरण व विक्रयार्थ कोई भावी कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता(ओं) 🖊	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया	माँग	अधिग्रहण				
सह—उधारकर्ता(ओं) के नाम	निम्न संपत्ति क समस्त वह माग तथा अश : मकान जा खसरा	देयराषि (रु.)	सूचना की तिथि	की तिथि				
श्री शैलेंद्र कुमार वर्मा, श्री राम गोपाल वर्मा	सं. ४२२ मिन. के ऊपर स्थित भूखण्ड पर निर्मित है, जिसका अधिमापन ४५९ वर्ग फुट है, जो ग्राम– तख्वा कथौता,		1/					
तथा श्रीमती रेखा वर्मा,	परगना लखनऊ, पिन कोड : 226010, उत्तर प्रदेश, भारत में	(08—नवंबर —2021	12—नवंबर —2024				
वर्मा ट्रेडर्स	स्थित है।	सौ छह मात्र)	2021	2024				
(प्रॉस्पेक्ट नं. 871150)								
0 1 1 0 1		0 / 5 %/ 1/2						
अन्य विवरणों के लिये कृपया प्राधिकृत अधिकारी से शाखा कार्यालय : 5वां तल, एल्डिको कॉर्पोरेट चैंबर 1, विभृति खण्ड गोमती नगर,								

लखनऊ— 226010 से / अथवा कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट सं. 98, फेज—IV, उद्योग विहार, गुड़गाँव, हरियाणा से संपर्क करें। स्थान : लखनऊ, दिनाँक : 16-11-2024 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

वीएसडी कॉनिफन लिमिटेड

CIN: L70101UP1984PLC006445 रिज. कार्यालय: 308-ए, तीसरी मंजिल, शालीमार स्क्वायर, बी.एन. रोड,

लालबाग, लखनऊ - 226001 टेली: 0522-4334796, ईः vsdconfin@gmail.com, डब्ल्यूः www.vsdconfin.in

30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए स्टैंडअलॉन अलेखापरीक्षित

6			(ल	ख रुपये में
•	समाप्त	तिमाही	समाप्त छमाही	समाप्त वर्ष
विवरण	भ का कि अनंकेक्षित	२००२ तरा अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक <u>्षि</u> त
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	+	.7		322.11
अवधि के लिए शुद्ध लाभ⁄ (हानि) (कर, सामान्य और असाधारण मदों से पूर्व)	(2.99)	(4.58)	(10.64)	(15.77
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (सामान्य और असाधारण मदों के बाद)	(2.99)	(4.58)	(10.04)	(15.77
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ⁄(हानि) (सामान्य और असाधारण मदों के बाद)	(2.99)	(4.88)	(10.04)	11.67
अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) के लिए लाभ∕(हानि) को शामिल करके तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	(2.99)	(4.88)	(10.04)	(11.67
इक्विटी शेयर पूंजी	1,546.30	1.546.30	1,546.30	1,546.30
पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)				(97.80)
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) 10/- रु. प्रति का मूल तनुकृत	(0.02)	(0.00)	(0.06)	80.0§ 80.0§
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों के बाद) 10/- रु. प्रति का मूल तनुकृत	(0.02)	5000000	(0.06)	(0.08) (0.08)

1. उपरोक्त 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दायर स्टैंडअलोन अन-ऑडिटेड वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए स्टैंडअलोन अन-ऑडिटेड वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.vsdconfin.in पर उपलब्ध है। उपरोक्त वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा सिमित द्वारा सिमीक्षा की गई और 14 नवंबर, 2024 को

आयोजित बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। कंपनी पृष्टि करती है कि उसके वैधानिक लेखा परीक्षकों ने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के संदर्भ में 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों पर अपरिवर्तित राय के साथ सीमित समीक्षा रिपोर्ट जारी की है।

कृते वीएसडी कॉनिफन लिमिटेड

संतोष कुमार गुप्ता डीआईएनः ००७७०५३३

कार्यकारी निदेशक

ADVANCE STEEL TUBES LIMITED

CIN: L24231UP1978PLC004583 Regd. Off: 45/3, Industrial Area, Site-IV, Sahibabad, Ghaziabad-201010, Uttar Pradesh Corp Off.: 81, Functional Industrial Estate, Patparganj, Delhi-110092

E-mail: info@advance.co.in Website: www.advance.co.in Extract of (Standalone) Unaudited Financial Results for the quarter ended

30th September, 2024 (Amount in lacs except EPS) Year Corresponding Particulars ending ended 3 months ended 30.09.2024 31.03.2023 in the previous (Audited) year30.09.2023 1 Total Income from Operations 2,197.72 15,620.30 3,807.18 2 Net Profit / (Loss) for the period (before 143.33 300.48 Tax exceptional and/or extraordinary items 3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items) 143.33 300.48 4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items) 101.03 664.76 227.30 5 Total comprehensive income for the period [comprising profit /(loss for the period (after tax and other comprehensive income (aftertax)] 102.55 227.30 6 Paid up equity share capital 74.00 74.00 74.00 7 Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the Audited Balance Sheet - 10,977.13 of previous year) 8 Earnings per share of Rs. 10/- each for continuing and discontinued operations 1) Basic 2) Diluted 13,65 89.83 30.72

- a) The Unaudited standalone financial results of Advance Steel Tubes Limited have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 14th November, 2024 and have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company
- b) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the stock exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & other disclosure requirements) regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the stock exchange www.cse-india.com and on the Company's website www.advance.co.in

By the order of the board

Place: New Delhi Dated: 14.11.2024 Deoki Nandan Agarwal (Managing Director) DIN:00586794

अधिग्रहण सूचना

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के रूप में विदित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, ऋणकर्ता(ओं) / सह-ऋणकर्ता(ओं) को मांग सूचनायें निर्गत की थीं, जिनमें ऋणकर्ताओं को उक्त सुचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर उक्त सुचनाओं में निम्न तालिका में वर्णित संबंधित नामों के समक्ष अंकितानुसार राशि का राशि पर प्रयोज्य दरों पर आकलित ब्याज और भगतान तथा / अथवा वसलीकरण की तिथि तक वहनकत प्रयोज्यानसार भावी ब्याज. आकस्मिक व्ययों, लागतों, शुल्कों, इत्यादि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

क्र. सं.	ऋण सं.	ऋणकर्ता / सह—ऋणकर्ता / गारंटर /	13(2) सूचना तिथि / बकाया देय	अधिग्रहण की तिथि / समय
		बंधककर्ता का नाम	(रु. में) इस तिथि को	एवं प्रकार
1.	47939610002348	1 श्री शुभम सिंह (आवेदक), 2) श्रीमती रेखा	13(2) की तिथि : 09.09.2024 दिनांक 03.09.2024	दिनाँक : 14.11.2024 समय :
		(सह–आवेदक)	के अनुसार बैंक को देय राशि रु. 18,48,407/— (रुपये अड्डारह लाख अड़तालीस हजार चार सौ सात मात्र) है।	11:45 ए.एम. साँकेतिक अधिग्रहण
	0.10		,	

प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण : प्लॉट संख्या 63, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, खसरा संख्या 763, लक्ष्मी लैंड सिटी, फेज–।।, गांव मीरपुर हिंदू परगना और तहसील– लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित, श्री शुभम सिंह पुत्र श्री राम बचन सिंह के स्वामित्व में तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व : मोह. समीर का प्लॉट, पश्चिम : प्लॉट नं. 64, उत्तर : प्लॉट नं. 74, दक्षिण : रास्ता 15 फीट चौडा।

चुंकि यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ता/सह—ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्तागण निर्धारित देयराशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने यहां इसमें उपरोक्त विवरणित संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पिटत उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त षिक्तयों के प्रयोगान्तर्गत, उपरांकित तिथियों पर, साँकेतिक अधिग्रहण कर लिया है यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ताओं / सह—ऋणकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि उपर्युक्त संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों का लेन–देन न करें तथा उक्त संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

> स्थान : गाजियाबाद हस्ता./-प्राधिकृत अधिकारी कृते जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड दिनांक : 16-11-2024



<u>पंजीकृत कार्यालय</u> :— द फेयरवे, भू एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोम्लुर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के समीप, छल्लाघट्टा, बैंगलोर–560071, शाखा कार्यालय : 16/12, द्वितीय तल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली–110005

